

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 76]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 जनवरी 2010—पौष 24, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2010

फा. क्र.-17(ई)-133-09-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश के रीवा जिले में त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2009-10 सम्पन्न कराने हेतु दिनांक 16 जनवरी 2010 से दिनांक 28 जनवरी 2010 तक की अवधि के लिये संलग्न सूची में उल्लेखित अधिकारियों को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

जिला-रीवा

क्र.	एम्पलाई कोड	अधिकारी का नाम	पद एवं कार्यालय	सेवा/संवर्ग का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2424	श्रीराम पाण्डेय	कार्यपालन यंत्री, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. उत्तर संभाग.	यंत्री/विद्युत् वि.कं.लि.
2	2	श्री एस. के. गर्ग	कार्यपालन यंत्री, म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय, रीवा.	यंत्री/म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड.
3	12957	श्री आर. के. वर्मा	सहायक यंत्री, कार्या. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रीवा परिक्षेत्र.	यंत्री/लो.नि.वि.
4	12260	श्री दुर्गा शंकर गुप्ता	सहायक यंत्री, कार्या. मुख्य अभियन्ता, गंगा कछार, रीवा.	यंत्री/जल संसाधन विभाग
5	11865	श्री ए. के. मिश्रा	सहायक यंत्री, कार्या. मुख्य अभियन्ता, गंगा कछार, रीवा.	यंत्री/जल संसाधन विभाग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	11880	श्री संकल्प श्रीनारतन	सहायक यंत्री, कार्या. मुख्य अभियन्ता, गंगा कछार, रीवा.	यंत्री/जल संसाधन विभाग
7	12256	श्री शरद चन्द्र शर्मा	सहायक यंत्री, कार्या. मुख्य अभियन्ता, गंगा कछार, रीवा.	यंत्री/जल संसाधन विभाग
8	11868	श्री बी. एस. तिवारी	सहायक यंत्री, कार्या. मुख्य अभियन्ता, गंगा कछार, रीवा.	यंत्री/जल संसाधन विभाग
9	12318	श्री प्रवीण कुमार पाण्डेय	सहायक यंत्री, कार्या. मुख्य अभियन्ता, गंगा कछार, रीवा.	यंत्री/जल संसाधन विभाग
10	11849	श्री डी. एल. वर्मा	कार्यपालन यंत्री, कार्या. मुख्य अभियन्ता, गंगा कछार, रीवा.	यंत्री/जल संसाधन विभाग
11	14509	श्री उमेश जैन	सहायक यंत्री, कार्या. मुख्य अभियन्ता, म.प्र.पू.क्षेत्र वि.वि.कं.लि.	यंत्री/वि.वि.कं.
12	3946	श्री लोकेन्द्र सिंह	सहायक यंत्री, एम. पी. हाऊसिंग बोर्ड संभाग, रीवा	यंत्री/हाऊसिंग बोर्ड
13	3940	श्री व्ही. के. सिंह	कार्यपालन यंत्री, एम. पी. हाऊसिंग बोर्ड संभाग, रीवा.	यंत्री/हाऊसिंग बोर्ड
14	11509	श्री गली राम धुर्वे	अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि. संभाग, क्रमांक 1.	यंत्री/लो.नि.वि.
15	836	श्री एस. के. दुबे	सहायक यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, क्रमांक 1	यंत्री/लो.नि.वि.
16	36	श्री एन. डी. द्विवेदी	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड, रीवा.	यंत्री/लो.स्वा.यां.
17	37	श्री विनोद कुमार तिवारी	सहायक यंत्री, लो. स्वा. यां. उपखण्ड, रीवा	यंत्री/लो.स्वा.यां.
18	2533	श्री ए. के. दुबे	सहायक यंत्री (सि.), कार्या. अधीक्षण यंत्री, (सि-3) टी.एच.पी. सिलपरा.	यंत्री/वि. वि. कं.
19	2138	श्री डी. के. शिव	अधीक्षण यंत्री, (संचा./संधा.) ज.वि.गृ.	यंत्री/ज.वि.गृ.
20	2143	श्री एन. के. उपाध्याय	कार्यपालन यंत्री, कार्यालय अधीक्षण यंत्री, (संचा./संधा.) ज.वि.गृ.	यंत्री/ज.वि.गृ.
21	2141	श्री आर. बी. एस. तिवारी	कार्यपालन यंत्री, कार्यालय अधीक्षण यंत्री, (संचा./संधा.) ज.वि.गृ.	यंत्री/ज.वि.गृ.
22	1720	श्री आर. के. तिवारी	अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें मण्डल, रीवा.	यंत्री/ग्रा.यां.सेवा
23	15834	श्री आर. के. शर्मा	सहायक यंत्री, कार्यालय अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, रीवा.	यंत्री/ जल संसाधन विभाग
24	15813	श्री एन. एस. सिसौदिया	सहायक यंत्री, कार्यालय अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, रीवा.	यंत्री/ जल संसाधन विभाग
25	2217	श्री एम. पी. चतुर्वेदी	अधीक्षण यंत्री, बाणसागर नहर	यंत्री/ जल संसाधन विभाग
26	1954	श्री महाबली सिंह	सहायक यंत्री, जल संसाधन सर्वे संभाग, रीवा	यंत्री/ जल संसाधन विभाग
27	1951	श्री जागेश्वर प्रसाद गुप्ता	सहायक यंत्री, जल संसाधन सर्वे संभाग, रीवा	यंत्री/ जल संसाधन विभाग
28	18096	श्री हरीश कुमार तिवारी	सहायक यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग	यंत्री/ जल संसाधन विभाग
29	18095	श्री आर. एन. द्विवेदी	सहायक यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग	यंत्री/ जल संसाधन विभाग
30	310	श्री के. आर. अहिरवार	सहायक यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग	यंत्री/ जल संसाधन विभाग
31	12422	श्री चन्द्र प्रकाश नामदेव	सहायक यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास-1	यंत्री/ जल संसाधन विभाग
32	13380	श्री शांति प्रकाश झा	सहायक यंत्री, क्षे. कार्यालय म. प्र. प्रदूषण नि.	यंत्री/म. प्र. प्रदूषण नि.
33	544	श्री हितेन्द्र कुमार	कार्यपालन यंत्री, विसु एवं सं.वि. निरी., रीवा	यंत्री/वि.कं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34	851	श्री डी. एल. फजलीस	सहायक यंत्री (सि.), कार्या. कार्यपालन यंत्री, सि. भू.अ. टी.एच.पी., सिरमौर.	यंत्री/वि.वि.कं.
35	843	श्री एन. एल. अहिरवार	कार्यपालन यंत्री (सि.), सि. भू.अ.टी.एच.पी.,सिरमौर	यंत्री/वि.वि.कं.
36	880	श्री विजय कुमार पाठक	कार्यपालन यंत्री (सि.), कार्या. कार्यपालन यंत्री, सि. भू.अ.टी.एच.पी., सिरमौर.	यंत्री/वि.वि.कं.
37	891	श्री आर. एन. सिंह	कार्यपालन यंत्री (सि.), कार्या. कार्यपालन यंत्री, सि. भू.अ.टी.एच.पी., सिरमौर.	यंत्री/वि.वि.कं.
38	858	श्री एम. पी. सेन	कार्यपालन यंत्री (सि.), कार्या. कार्यपालन यंत्री, सि. भू.अ.टी.एच.पी., सिरमौर.	यंत्री/वि.वि.कं.
39	1248	श्री व्ही. एन. मिश्रा	सहायक यंत्री, कार्यालय कार्यपालन यंत्री (शहर), म.प्र. पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., रीवा.	यंत्री/वि.वि.कं.
40	1235	श्री लोकेश साहू	सहायक यंत्री, कार्यालय कार्यपालन यंत्री (शहर), म.प्र. पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., रीवा.	यंत्री/वि.वि.कं.
41	247	श्री अमित कुमार	सहायक यंत्री, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, एस.टी.सी. म.प्र. पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., रीवा.	यंत्री/वि.वि.कं.
42	2441	श्री एस. एस. सप्रे	कार्यपालन यंत्री, एस.टी.एम. म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., रीवा.	यंत्री/वि.वि.कं.
43	1143	श्री यू. पी. शुक्ला	सहायक यंत्री, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, सं. संधा म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.	यंत्री/वि.वि.कं.
44	841	श्री कृष्ण कुमार द्विवेदी	सहायक यंत्री, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु संभाग, रीवा.	यंत्री/लो.नि.वि.
45	822	श्री बी. एल. अग्रवाल	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु संभाग, रीवा	यंत्री/लो.नि.वि.
46	1779	श्री डी.जी. वैद्य	सहायक यंत्री, कार्या. कार्यपालन यंत्री, सि-3 टी. एच.पी. म. प्र. पू. क्षेत्र वि.वि.कं., सिलपुरा.	यंत्री/वि.वि.कं.
47	1783	श्री बी. के. परमार	सहायक यंत्री (सि.), टीबीपीएस कार्यालय कार्यपालन यंत्री, सि.-3 टी.एच.पी. म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., सिलपुरा.	यंत्री/वि.वि.कं.
48	1785	श्री ए. के. डेकारे	सहायक यंत्री (सि.), टीबीपीएस कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, सि.-3 टी.एच.पी. म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., सिलपुरा.	यंत्री/वि.वि.कं.
49	1770	श्री एस. पी. सिंह	कार्यपालन यंत्री (सि.), सि. सि-3 टी.एच.पी.म.प्र.पू. क्षेत्र, वि.वि.कं., सिलपुरा.	यंत्री/वि.वि.कं.
50	9745	श्री जे. पी. आर्य	अनुविभागीय अधिकारी, कार्या. कार्यपालन यंत्री, ग्रा.यांत्रि. सेवा, रीवा.	यंत्री/ग्रा.यां.सेवा
51	920	श्री जे. पी. पाण्डेय	सहायक अभियन्ता (सि.), कार्यालय कार्यपालन यंत्री, सि-5 पावर जे.कं.लि., सिलपुरा.	यंत्री/वि.वि.कं.
52	898	श्री एस. के. तिवारी	कार्यपालन यंत्री (सि.), सि-5 पावर जे.कं.लि., सिलपुरा.	यंत्री/वि.वि.कं.
53	909	श्री अविनाश प्रतापसिंह धाकड़े	सहायक अभियन्ता (सि.), कार्यालय कार्यपालन यंत्री, सि.-5 पावर जे.कं.लि., सिलपुरा.	यंत्री/वि.वि.कं.
54	932	श्री मुकेश चौकसे	सहायक अभियन्ता (सि.), कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, सि.-5 पावर जे.कं.लि., सिलपुरा.	यंत्री/वि.वि.कं.
55	18284	श्री आर. के. बादल	सहायक अभियन्ता, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, सि.-5 पावर जे.कं.लि., सिलपुरा.	यंत्री/वि.वि.कं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
56	901	श्री अमर खरे	सहायक अभियन्ता (सि.), कार्यालय कार्यपालन यंत्री, यंत्री/वि.वि.कं. सि.-5 पावर जे.कं.लि., सिलपरा.	
57	8312	श्री विकास निगम	सहायक यंत्री, कार्या. कार्यपालन यंत्री, अपर पुर्वा नहर, रीवा.	यंत्री/जल संसाधन विभाग
58	8302	श्री रामगोपाल गुप्ता	सहायक यंत्री, कार्या. कार्यपालन यंत्री, अपर पुर्वा नहर, रीवा.	यंत्री/जल संसाधन विभाग
59	8287	श्री अशोक कुमार सिंह चौहान	सहायक यंत्री, कार्या. कार्यपालन यंत्री, अपर पुर्वा नहर, रीवा.	यंत्री/जल संसाधन विभाग
60	8298	श्री तरूण कुमार नंदी	सहायक यंत्री, कार्या. कार्यपालन यंत्री, अपर पुर्वा नहर, रीवा.	यंत्री/जल संसाधन विभाग
61	8149	श्री भागवत प्रसाद मिश्रा	सहायक यंत्री कार्या. कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग.	यंत्री/जल संसाधन विभाग
62	8094	श्री सुशील कुमार द्विवेदी	सहायक यंत्री, कार्या. कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग.	यंत्री/जल संसाधन विभाग
63	8110	श्री इन्द्रभूषण नायक	सहायक यंत्री, कार्या. कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग.	यंत्री/जल संसाधन विभाग
64	8067	श्री हीरालाल त्रिपाठी	प्रभारी कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग	यंत्री/जल संसाधन विभाग
65	8126	श्री अनवारूल हक	सहायक यंत्री, कार्या. कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग.	यंत्री/जल संसाधन विभाग
66	8135	श्री रामजी तिवारी	सहायक यंत्री, कार्या. कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग.	यंत्री/जल संसाधन विभाग
67	464	श्री अनिल कुमार दुबे	कार्यपालन यंत्री, सि. सर्वेक्षण अनु. स. रीवा	यंत्री/जल संसाधन विभाग
68	4718	श्री आर. एम. सिंह	सहायक यंत्री, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., रीवा.	यंत्री/लो.नि.वि.
69		श्री एन. पी. मालवीय	अधीक्षण यंत्री, लो.स्वा. यां. विभाग, रीवा मण्डल, रीवा.	लो. स्वा. यां.
70		श्री एम. पी. पाण्डेय	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख कलेक्ट्रेट, रीवा	भू-अभिलेख